

उत्तर प्रदेश सरकार  
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5  
संख्या3124/11-5-2008-312(27)/2008  
लखनऊ, दिनांक 11 जुलाई,2008  
अधिसूचना  
विविध

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या 7 सन् 1870) की धारा 24 क के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 3 की उप धारा (3) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ 2 में यथा उल्लिखित अपर महानिरीक्षक निबन्धन और अपर आयुक्त स्टाम्प का कार्यालय स्थापित करने के लिए अपर महानिरीक्षक निबन्धन और अपर आयुक्त स्टाम्प के निम्नलिखित कार्यालय का गठन करते हैं और नीचे अनुसूची के स्तम्भ 3 में यथा उल्लिखित प्रत्येक कार्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं को चिन्हित करते हैं।

2. यह अधिसूचना गजट में इसके प्रकाशन के दिनांक में प्रभावी होगी।

अनुसूची

क्र०सं०	अपर महानिरीक्षक निबन्धन और अपर आयुक्त स्टाम्प के कार्यालय का नाम एवं मुख्यालय	अपर महानिरीक्षक निबन्धन और अपर आयुक्त स्टाम्प के कार्यालयों की क्षेत्रीय सीमाए (राजस्व मण्डल के नाम)
1	2	3
1.	अपर महानिरीक्षक निबन्धन और अपर आयुक्त स्टाम्प (प्रभागीय आन्तरिक तकनीकी परीक्षण प्रकोष्ठ), गाजियाबाद	सहारनपुर,मेरठ,आगरा,अलीगढ़,मुरादाबाद, बरेली,कानपुर एवं लखनऊ
2.	अपर महानिरीक्षक निबन्धन और अपर आयुक्त स्टाम्प (प्रभागीय आन्तरिक तकनीकी परीक्षण प्रकोष्ठ), इलाहाबाद	झांसी,चित्रकूटधाम,इलाहाबाद,मिर्जापुर, फैजाबाद,देवीपाटन,बस्ती,गोरखपुर,आजमगढ़ एवं वाराणसी

अपर महानिरीक्षक निबन्धन और अपर आयुक्त स्टाम्प (पी०सी०एस०) का दो कार्यालय होगा जिसमें से एक महानिरीक्षक निबन्धन और आयुक्त स्टाम्प के लखनऊ स्थित शिविर कार्यालय में होगा और दूसरा महानिरीक्षक निबन्धन में आयुक्त स्टाम्प के मुख्यालय इलाहाबाद में होगा।

आज्ञा से  
गोविन्द नायर,  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 3124(1)/ग्यारह-5-2008-312(27)/2008 तद्धिनांक

प्रतिलिपि अग्रेजी तथा हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय  
ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे 11 जुलाई 2008 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड  
)ख (में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 200 प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर  
प्रदेश, इलाहाबाद को और 100 प्रतियां शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से  
)एम0बी0सिंह(  
अनु सचिव।

संख्या: 3124(2)/ग्यारह-5-2008-312(27)/2008 तद्धिनांक

- 1- महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/शिविर लखनऊ।
- 2- सचिव नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- समस्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- अपर महानिरीक्षक निबन्धन, (प0क्षे0) गाजियाबाद।
- 6- समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि  
कृपया अपने स्तर से उपनिबन्धक को एक-एक प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7- विधायी अनुभाग-1।
- 8- विधि परामर्शी पुस्तकालय, उ0प्र0 सचिवालय।
- 9- शासकीय हस्तान्तरक, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- सूचना निदेशक, सूचना विभाग, लखनऊ।
- 11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
)एम0बी0सिंह(  
अनु सचिव।